

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 535]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अक्टूबर—2010 आश्विन 9, शक 1932

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 13-33-2006-उन्तीस-2.—बांट और माप मानक  
(प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 (1985 का सरल क्र. 54) की धारा  
72 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, भारत  
सरकार, से परामर्श करके मध्यप्रदेश बांट और माप मानक (प्रवर्तन)  
नियम, 1989 में, एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त  
धारा की उपधारा (4) द्वारा अपेक्षित किए गये अनुसार “मध्यप्रदेश  
राजपत्र” दिनांक 06 अगस्त 2010 में पूर्व प्रकाशित किया जा चुका  
है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उपरोक्त नियमों में,—

(1) नियम 14 में उपनियम (1) में, तीसरे परंतुक में, शब्द  
“भी” के स्थान पर, शब्द “और” स्थापित किया जाए  
तथा पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए  
और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया  
जाए, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि फायबर या प्लास्टिक या स्टील टेप मेजर  
को पुनर्सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित नहीं होगा”.

(2) नियम 20 में, उपनियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर,  
निम्नलिखित खण्ड स्थापित किये जाए, अर्थात् :—

“(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (जिसमें  
भौतिकी एक विषय के रूप में हो), प्रौद्योगिकी या

इंजीनियरिंग में स्नातक न हो या इंजीनियरिंग में  
कोई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा (उपाधि पत्र) न रखता  
हो तथा तीन वर्ष का व्यावसायिक अनुभव न हो,  
और”.

(3) अनुसूची बारह के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित  
की जाए, अर्थात् :—

#### “अनुसूची—बारह”

[नियम 17 (1) देखिए]

बाटों, मापों और तौल के उपकरणों और मापों के उपकरणों  
के सत्यापन और मुद्रांकन के लिये देय फीस

1. बाट :

(क) बुलियन बाट :

अभिधान	फीस प्रति नग (रुपए)
(1)	(2)
10 किग्रा	30.00
5 किग्रा	20.00
2 किग्रा	20.00
1 किग्रा	20.00
500 ग्राम	15.00
200 ग्राम	15.00
100 ग्राम	15.00
50 ग्राम	15.00
20 ग्राम	15.00
10 ग्राम	15.00
5 ग्राम	15.00
2 ग्राम	15.00
1 ग्राम	15.00
500 मिग्रा	15.00
200 मिग्रा	15.00
100 मिग्रा	15.00

(1)	(2)
50 मिग्रा	15.00
20 मिग्रा	15.00
10 मिग्रा	15.00
5 मिग्रा	15.00
2 मिग्रा	15.00
1 मिग्रा	15.00

## (ख) कैरेट बाट :

अभिधान (1)	फीस प्रति नग (रुपए) (2)
500 कैरेट (100 ग्रा.)	20.00
200 कैरेट (40 ग्रा.)	20.00
100 कैरेट (20 ग्रा.)	20.00
50 कैरेट (10 ग्रा.)	20.00
20 कैरेट (4 ग्रा.)	20.00
10 कैरेट (2 ग्रा.)	20.00
5 कैरेट (1 ग्रा.)	20.00
2 कैरेट (400 मिग्रा.)	20.00
1 कैरेट (200 मिग्रा.)	20.00
0.5 कैरेट (100 मिग्रा.)	20.00
0.2 कैरेट (40 मिग्रा.)	20.00
0.1 कैरेट (20 मिग्रा.)	20.00
0.05 कैरेट (10 मिग्रा.)	20.00
0.02 कैरेट (4 मिग्रा.)	20.00
0.01 कैरेट (2 मिग्रा.)	20.00
0.005 कैरेट (1 मिग्रा.)	20.00

## (ग) बेलनाकार घुण्डीवाले बाट :

अभिधान (1)	फीस प्रति नग (रुपए) (2)
10 किग्रा	20.00
5 किग्रा	20.00
2 किग्रा	15.00
1 किग्रा	10.00
500 ग्राम	5.00
200 ग्राम	5.00
100 ग्राम	5.00
50 ग्राम	5.00
20 ग्राम	5.00
10 ग्राम	5.00
5 ग्राम	5.00
2 ग्राम	5.00

(1)	(2)
1 ग्राम	5.00

## (घ) चादरी धातु बाट :

अभिधान (1)	फीस प्रति नग (रुपए) (2)
500 मिग्रा	5.00
200 मिग्रा	5.00
100 मिग्रा	5.00
50 मिग्रा	5.00
20 मिग्रा	5.00
10 मिग्रा	5.00
5 मिग्रा	5.00
2 मिग्रा	5.00
1 मिग्रा	5.00

## (ङ) लौह षड्भुजीय बाट, घुण्डी वाले बाट और समान्तरषटफलक बाट :

अभिधान (1)	फीस प्रति नग (रुपए) (2)
50 किग्रा	25.00
20 किग्रा	20.00
10 किग्रा	20.00
5 किग्रा	20.00
2 किग्रा	15.00
1 किग्रा	10.00
500 ग्राम	5.00
200 ग्राम	5.00
100 ग्राम	5.00
50 ग्राम	5.00
20 ग्राम	5.00
10 ग्राम	5.00
5 ग्राम	5.00
2 ग्राम	5.00
1 ग्राम	5.00

## (च) उच्च क्षमता वाली तौल मशीन के परीक्षण हेतु मानक बाट :

अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि के अनुपात के अनुसार फीस अभिधान (1)	फीस प्रति नग (रुपए) (2)
0.5/10000, 3.3/10000,	1.7/10000, 1.0/10000
100 किग्रा	75.00 50.00
200 किग्रा	150.00 100.00

(1)	(2)	(3)
500 किग्रा	300.00	200.00
1000 किग्रा	750.00	500.00
2000 किग्रा	1500.00	1000.00
5000 किग्रा	3000.00	2000.00

**2. क्षमता माप :**

अभिधान (1)	फीस प्रति नग (रुपए) (2)
100 लीटर और अधिक	पहले 100 लीटर के लिये रुपये 50 और रुपये 7 प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर या उसके भाग के लिए.
50 लीटर	50.00
20 लीटर	20.00
10 लीटर	20.00
5 लीटर	10.00
2 लीटर	10.00
1 लीटर	10.00
500 मिली	10.00
200 मिली	10.00
100 मिली	10.00
50 मिली	10.00
20 मिली	10.00
10 मिली	10.00
5 मिली	10.00
2 मिली	10.00
1 मिली	10.00

**3. लम्बाई माप :**

**(क) अ-नम्य :**

अभिधान (1)	फीस प्रति नग (रुपए) (2)
2 मीटर	10.00
1 मीटर	10.00
0.5 मीटर	20.00
1 मीटर प्रत्येक सेमी पर मापांकित.	20.00
0.5 मीटर प्रत्येक सेमी पर मापांकित.	20.00

**(ख) फेब्रिक या प्लास्टिक :**

वर्ग तीन 10 पैसे/मीटर
वर्ग दो 15 पैसे/मीटर
वर्ग एक 20 पैसे/मीटर

**(ग) बुना हुआ :**

वर्ग तीन 10 पैसे/मीटर
-----------------------

वर्ग दो 15 पैसे/मीटर
वर्ग एक 20 पैसे/मीटर

**(घ) इस्पात फीते :**

वर्ग तीन 10 पैसे/मीटर
वर्ग दो 15 पैसे/मीटर
वर्ग एक 20 पैसे/मीटर

**(ङ) फोल्डिंग स्केल्स :**

अभिधान (1)	फीस प्रति नग (रुपए) (2)
1 मीटर	10.00
0.5 मीटर	10.00

**(च) सर्वेक्षण चैन :**

अभिधान (1)	फीस प्रति नग (रुपए) (2)
30 मीटर	100.00
20 मीटर	100.00

**4. डण्डी वाली तराजू : वर्ग क और ख**

अभिधान (1)	फीस प्रति नग (रुपए) (2)
200 किग्रा	400.00
100 किग्रा	300.00
50 किग्रा	150.00
20 किग्रा	150.00
10 किग्रा	150.00
5 किग्रा	100.00
2 किग्रा	100.00
1 किग्रा	100.00
500 ग्राम और उससे कम	60.00

**5. डण्डी वाली तराजू : वर्ग ग और घ**

अभिधान (1)	फीस प्रति नग (रुपए) (2)
1000 किग्रा	200.00
500 किग्रा	200.00
300 किग्रा	200.00
200 किग्रा	100.00
100 किग्रा	100.00
50 किग्रा	20.00
20 किग्रा	20.00
10 किग्रा	20.00
5 किग्रा	15.00
2 किग्रा	15.00
1 किग्रा	15.00
500 ग्राम और उससे कम	10.00

6. मध्यम एवं साधारण यथार्थता वाले वर्ग तीन और चार के गैर-स्वचालित तौल उपकरण, यांत्रिक (एनालॉग उपदर्शन) :

अभिधान (1)	फीस प्रति नग (रुपए) (2)
400 टन	4000.00
300 टन	3000.00
200 टन	3000.00
150 टन	2000.00
100 टन	2000.00
80 टन	2000.00
60 टन	2000.00
50 टन	2000.00
40 टन	2000.00
30 टन	2000.00
25 टन	2000.00
20 टन	2000.00
15 टन	2000.00
10 टन	1000.00
5 टन	500.00
3 टन	400.00
2 टन	400.00
1500 किग्रा	300.00
1000 किग्रा	300.00
500 किग्रा	300.00
300 किग्रा	200.00
250 किग्रा	200.00
200 किग्रा	100.00
150 किग्रा	100.00
100 किग्रा	100.00
50 किग्रा	100.00
30 किग्रा	100.00
25 किग्रा	60.00
20 किग्रा	60.00
15 किग्रा	30.00
10 किग्रा	30.00
5 किग्रा	30.00
3 किग्रा	30.00
2 किग्रा	30.00
1 किग्रा	15.00
500 ग्राम और उसके नीचे	15.00

7. मध्यम एवं साधारण यथार्थता वाले वर्ग तीन तथा चार के गैर-स्वचालित तौल उपकरण इलेक्ट्रॉनिक :

अभिधान (1)	फीस प्रति नग (रुपए) (2)
400 टन	4000.00
300 टन	3000.00

(1)	(2)
200 टन	3000.00
150 टन	2000.00
100 टन	2000.00
80 टन	2000.00
60 टन	2000.00
50 टन	2000.00
40 टन	2000.00
30 टन	2000.00
25 टन	2000.00
20 टन	2000.00
15 टन	2000.00
10 टन	1000.00
5 टन	1000.00
3 टन	500.00
2 टन	500.00
1500 किग्रा	250.00
1000 किग्रा	250.00
500 किग्रा	250.00
300 किग्रा	200.00
250 किग्रा	200.00
200 किग्रा	200.00
150 किग्रा	200.00
100 किग्रा	200.00
50 किग्रा	200.00
30 किग्रा	200.00
25 किग्रा	200.00
20 किग्रा	100.00
15 किग्रा	100.00
10 किग्रा	100.00
5 किग्रा	100.00
3 किग्रा	100.00
2 किग्रा	100.00
1 किग्रा	100.00
500 ग्राम और उसके नीचे	100.00

8. उच्च यथार्थता वाले वर्ग एक और दो के और विशेष यथार्थता वाले दोनों यांत्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक :

अभिधान (1)	फीस प्रति नग (रुपए) (2)
50 टन से अधिक	3000.00
50 टन से अनधिक	2000.00
किन्तु 10 टन से अधिक.	
10 टन से अनधिक	1000.00
किन्तु 1 टन से अधिक.	
1 टन से अनधिक	500.00
किन्तु 50 किग्रा से अधिक.	
50 किग्रा से अनधिक	250.00
किन्तु 10 किग्रा से अधिक.	
10 किग्रा से अनधिक	200.00

**9. स्वचालित तौल मशीन:**

अभिधान (1)	फीस प्रतिनग (रुपए) (2)
अभिधान	फीस प्रति नग (रुपए)
100 टन से अधिक	4000.00
100 टन से अनधिक किन्तु 50 टन से अधिक	3000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 किग्रा से अधिक	500.00
50 किग्रा से अनधिक किन्तु 10 किग्रा से अधिक	250.00
10 किग्रा से अनधिक	200.00

**10. आयतन मापक उपकरण:**

(क) डिसपेंसिंग पम्प प्रत्येक पम्प	1000.00
(ख) योगकरण काउंटर्स	500.00
(ग) अन्य उपकरण	
100 लीटर से अधिक	पहले 100 लीटर के लिए. 500.00 प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर या उसके भाग के लिए 250.00
(घ) 100 लीटर अनाधिक किंतु 50 लीटर से अधिक.	500.00
(ङ) 50 लीटर अनाधिक किंतु 20 लीटर से अधिक.	250.00
20 लीटर से अनाधिक	200.00

**11. फ्लो ( प्रवाह ) मीटर :**

फ्लो-रेट ( प्रवाह दर )	
100 लीटर/मिनट तक	रु. 2000.00
100 लीटर से ऊपर किन्तु 500 लीटर/मिनट तक	रु. 3000.00
500 लीटर/मिनट से अधिक	रु. 5000.00

**12. रेखीय मापक उपकरण :**

ऑटो रिक्शा/टैक्सी मीटर	रु. 100.00
अन्य मीटर	रु. 50 पहले 1 किमी के लिये धन रु. 5/- अतिरिक्त 100 मीटर के लिये

13. डाक्टरी थर्मामीटर :	00.20 पैसे
14. पानी का मीटर :	रु. 25.00
15. प्याला मापनी :	
30 मिली	50.00
60 मिली	50.00
100 मिली	50.00

16. सीएनजी आटो फ्यूल पम्प (प्रति इकाई)	1000.00
17. एल.पी.जी. डिस्पेंसर फॉर मोटर व्हीकल (प्रति इकाई)	1000.00

No. F-13-33-2006-XXIX-2.—In exercise of the powers conferred by Section 72 of the Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act, 1985 (No. 54 of 1985), the State Government, after consultation with the Government of India, hereby make the following amendment in the Madhya Pradesh Standards of Weights and Measures (Enforcement) Rules, 1989, the same having been previously published in "Madhya Pradesh Gazette" dated 6th August 2010, as required by subsection (4) of the said Section, namely:—

**AMENDMENT**

In the said rules,—

- (1) In rule 14, in sub-rule (1), in the third proviso, for the word "also", the word "further" shall be substituted and for the full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that for fiber or plastic or steel tape measures, no re-verification shall be required."

- (2) In rule 20, in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) is a graduate of a recognised University in Science (with Physics as one of the subjects), technology or engineering or holds a recognised diploma in engineering and having professional experience of 3 years; and"

- (3) For Schedule XII, the following Schedule shall be substituted, namely:—

**"SCHEDULE-XII  
[See Rule 17 (1)]**

**FEE PAYABLE FOR VERIFICATION AND STAMPING OF WEIGHTS, MEASURES AND WEIGHING AND MEASURING INSTRUMENTS**

**(1) Weights:**

**(a) Bullion Weights**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
10 Kg	30.00
5 Kg	20.00
2 Kg	20.00
1 Kg	20.00
500 g	15.00
200 g	15.00

(1)	(2)
100 g	15.00
50 g	15.00
20 g	15.00
10 g	15.00
5 g	15.00
2 g	15.00
1 g	15.00
500 mg	15.00
200 mg	15.00
100 mg	15.00
50 mg	15.00
20 mg	15.00
10 mg	15.00
5 mg	15.00
2 mg	15.00
1 mg	15.00

**(b) Carat Weights :**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
500 c (100 g)	20.00
200 c (40 g)	20.00
100 c (20 g)	20.00
50 c (10 g)	20.00
20 c (4 g)	20.00
10 c (2 g)	20.00
5 c (1 g)	20.00
2 c (400 mg)	20.00
1 c (200 mg)	20.00
0.5c (100 mg)	20.00
0.2 c (40 mg)	20.00
0.1 c (20 mg)	20.00
0.05 c	20.00
0.02 c (4 mg)	20.00
0.01 c (2 mg)	20.00
0.005c (1 mg)	20.00

**(C) Cylindrical knob type weights :**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
10 Kg	20.00
5 Kg	20.00
2 Kg	15.00
1 Kg	10.00
500 g	5.00
200 g	5.00
100 g	5.00
50 g	5.00
20 g	5.00
10 g	5.00
5 g	5.00
2 g	5.00
1 g	5.00

**(d) Sheet metal Weights :**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
500 mg	5.00
200 mg	5.00
100 mg	5.00
50 mg	5.00
20 mg	5.00
10 mg	5.00
5 mg	5.00
2 mg	5.00
1 mg	5.00

**(e) Iron hexagonal weights, knob type Weights and paralleloiped weights :**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
50 Kg	25.00
20 Kg	20.00
10 Kg	20.00
5 Kg	20.00
2 Kg	15.00
1 Kg	10.00
500 g	5.00
200 g	5.00
100 g	5.00
50 g	5.00
20 g	5.00
10 g	5.00
5 g	5.00
2 g	5.00
1 g	5.00

**(f) Standard Weights for testing of, high capacity weighing machines :**

Fees corresponding to Max. permissible relative error

(1)	(2)
0.5/10000	3.3/10000,
	1.7/10000,
	1.0/10000

100 Kg	75.00	50.00
200 Kg	150.00	100.00
500 Kg	300.00	200.00
1000 Kg	750.00	500.00
2000 Kg	1500.00	1000.00
5000 Kg	3000.00	2000.00

**(2) Capacity Measures :**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
100 l. and above	Rs. 50 for the 1st 100 litre plus Rs. 7 for every additional 100 litre or part thereof

(1)	(2)
50 l	50.00
20 l	20.00
10 l	20.00
5 l	10.00
2 l	10.00
1 l	10.00
500 ml	10.00
200 ml	10.00
100 ml	10.00
50 ml	10.00
20 ml	10.00
10 ml	10.00
5 ml	10.00
2 ml	10.00
1 ml	10.00

**3 Length Measures :**

**(a) Non-Flexible—**

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
2 m	10.00
1 m	10.00
0.5 m	20.00
1 m graduated at every cm.	20.00
0.5 m graduated at every cm	20.00

**(b) Fabric or Plastic—**

Class III	10 paise/ metre
Class II	15 paise/ metre
Class I	20 paise/ metre

**(c) Woven**

Class III	10 paise/ metre
Class II	15 paise/ metre
Class I	20 paise/ metre

**(d) Steel tapes :**

Class III	10 paise/ metre
Class II	15 paise/ metre
Class I	20 paise/ metre

**(e) Folding Scales :**

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
1 m	10.00
0.5 m	10.00

**(f) Surveying Chain—**

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
30 m	100.00
20 m	100.00

**4 Beam Scale Class A & B**

Denomination	Fee per piece (Rs.)
200 Kg	400.00
100 Kg	300.00
50 Kg	150.00
20 Kg	150.00
10 Kg	150.00

(1)	(2)
5 Kg	100.00
2 Kg	100.00
1 Kg	100.00
500 g and below	60.00

**5 Beam Scale Class C & D**

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
1000 Kg	200.00
500 Kg	200.00
300 Kg	200.00
200 Kg	100.00
100 Kg	100.00
50 Kg	20.00
20 Kg	20.00
10 Kg	20.00
5 Kg	15.00
2 Kg	15.00
1 Kg	15.00
500 g and below	10.00

**6 Non-Automatic weighing Instruments, Mechanical (analogue Indication) belonging to ordinary and medium accuracy class III and IV**

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
400 t	4000.00
300 t	3000.00
200 t	3000.00
150 t	2000.00
100 t	2000.00
80 t	2000.00
60 t	2000.00
50 t	2000.00
40 t	2000.00
30 t	2000.00
25 t	2000.00
20 t	2000.00
15 t	2000.00
10 t	1000.00
5 t	500.00
3 t	400.00
2 t	400.00
1500 Kg	300.00
1000 Kg	300.00
500 Kg	300.00
300 Kg	200.00
250 Kg	200.00
200 Kg	100.00
150 Kg	100.00
100 Kg	100.00
50 Kg	100.00
30 Kg	100.00
25 Kg	60.00
20 Kg	60.00
15 Kg	30.00
10 Kg	30.00
5 Kg	30.00

(1)	(2)
3 Kg	30.00
2 Kg	30.00
1 Kg	15.00
500 g and below	15.00

**7 Non-Automatic weighing Instruments, Electronic belonging to ordinary and medium accuracy Class III and IV :—**

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
400 t	4000.00
300 t	3000.00
200 t	3000.00
150 t	2000.00
100 t	2000.00
80 t	2000.00
60 t	2000.00
50 t	2000.00
40 t	2000.00
30 t	2000.00
25 t	2000.00
20 t	2000.00
15 t	2000.00
10 t	1000.00
5 t	1000.00
3 t	500.00
2 t	500.00
1500 Kg	250.00
1000 Kg	250.00
500 Kg	250.00
300 Kg	200.00
250 Kg	200.00
200 Kg	200.00
150 Kg	200.00
100 Kg	200.00
50 Kg	200.00
30 Kg	200.00
25 Kg	200.00
20 Kg	100.00
15 Kg	100.00
10 Kg	100.00
5 Kg	100.00
3 Kg	100.00
2 Kg	100.00
1 Kg	100.00
500 g and below	100.00

**8 Weighing Instruments, of High accuracy class I and II and Special accuracy both Mechanical and Electronics :**

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
Exceeding 50 t	3000.00
Not exceed 50 t but exceed 10 t	2000.00
Not exceed 10 t but exceed 1 t	1000.00
Not exceed 1 t but exceed 50 Kg	500.00
Not exceed 50 Kg but exceed 10 Kg	250.00

(1)	(2)
Not exceed 10 Kg	200.00
<b>9 Automatic Weighing Machine :</b>	
Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
Exceeding 100 t	4000.00
Not exceed 100 t but exceed 50 t	3000.00
Not exceed 50 t but exceed 10 t	2000.00
Not exceed 10 t but exceed 1 t	1000.00
Not exceed 1 t but exceed 50 Kg	500.00
Not exceed 50 Kg but exceed 10 Kg	250.00
Not exceed 10 Kg	200.00
<b>10 Volumetric measuring Instruments :</b>	
(a) Dispensing pumps-each pump	1000.00
(b) Totalizing counters	500.00
(c) Other Instrument's exceeding 100 litres.	Rs. 500 for the 1st 100 liters plus Rs. 250 for every additional 100 litres or part thereof
Not exceeding 100 litres but exceeding 50 litres	500.00
Not exceeding 50 litres but exceeding 20 litres	250.00
Not exceeding 20 litres	200.00
<b>11 Flow Meters :</b>	
Flow rate up to 100 litre/minute	2000.00
above 100 litre/minute to 500 litre/minute	3000.00
above 500 litre/minute	5000.00
<b>12 Liner measuring Instruments :</b>	
Auto Rickshaw/Taxi meter	100.00
other Meters	Rs. 50 for 1st 1 Km or part thereof + Rs. 5 for every additional 100 m or part thereof
<b>13. Clinical Thermometer</b>	<b>20 Paisa/ thermometer</b>
<b>14. Water meter</b>	<b>25.00</b>
<b>15. Peg measure :</b>	
30 ml	50.00
60 ml	50.00
100 ml	50.00
<b>16. CNG Auto Fuel Pump every unit</b>	<b>1000.00</b>
<b>17. LPG dispenser for motor Vehicles every unit</b>	<b>1000.00</b>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ललित दाहिमा, उपसचिव.